



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, रविवार, जून 1, 1975/ज्येष्ठ 11, 1897

No. 97] NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 1, 1975/JYAISTHA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st June 1975

No. DRAWBACK/PN-50/75.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-33/75, dated 17th February, 1975, published in Part I, Section (1) of the Gazette of India Extraordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein :—

Against sub-serial No. 3614, the word 'iron' mentioned under the description column may be deleted.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 जून 1975

सं० प्रतिअदायगी/पी० एम०-50/75.—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग (1) खण्ड (i) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एम०-50/75 सं० 17-2-75 में केन्द्रीय सरकार द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उत्क्रमांक 3614 के सामने विवरण कालम के अन्तर्गत दिये गये शब्द 'लोहा' को हटा दिया जाय ।

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st June 1975

No. DRAWBACK/PN-51/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

I. Under the columns "Rate of Drawback" against sub-Serial Nos. 1908, 1910, 1914, 1915 and 1916 for the existing rate, the following rate shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Rate of drawback
1908	Rs. 1590.00 (Rupees one thousand five hundred and ninety only) per quintal.
1910	Rs. 705.00 (Rupees seven hundred and five only) per quintal.
191	Rs. 488.00 (Rupees four hundred and eighty eight only) per quintal.
1915	Rs. 718.00 (Rupees seven hundred and eighteen only) per quintal.
1916	Rs. 1020.00 (Rupees one thousand and twenty only) per quintal.

II. In proviso (ii) under sub-serial No 1916 for Rs. 495.00 (Rupees four hundred and ninety five only) read Rs. 488.00 (Rupees four hundred and eighty eight only).

III. Under column 'Rate of Drawback' against sub-serial No. 1917, for the existing rates of drawback, the following rates of drawback shall be substituted:—

1917 Rs. 940.00 (Rupees nine hundred and forty only) per quintal.

IV. For the existing sub-serial No. 1918 and the entries relating thereto the following shall be substituted:—

1918 Articles or components
parts of any article made
from polyvinyl chloride
composition including
articles made from un-
laminated rigid and flexi-
ble polyvinyl chloride
Boards/sheetings/sheets/
films/lay flat tubing etc.
(excluding rigid plastic
boards, sheetings, sheets
and films whether lami-
nated or not and flexible
polyvinyl chloride sheet-
ings, sheets, films and
lay flat tubings, whether
containing any textile
materials or not—

- | | |
|--|---|
| (a) Flexible | Rs. 190.00 (Rupees one hundred and ninety only) per quintal. |
| (b) Rigid PVC pipe/conduits and accessories for pipes (Rigid). | Rs. 295.00 (Rupees two hundred and ninety five only) per quintal. |
| (c) Rigid other than pipes. | Rs. 239.00 (Rupees two hundred and fifty nine only) per quintal. |
| (d) Flexible unsupported sheets. | Rs. 17.50 (Rupees seventeen and paise fifty only) per quintal. |

Provided that the procedure prescribed under Rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

V. For the existing rate of drawback of Rs. 27.00 (Rupees twenty seven only) per quintal against sub-serial No. 1921 read Rs. 17.50 (Rupees seventeen and paise fifty only) per quintal.

VI. Under Column 'Rate of drawback' against clause (iv) of sub-serial No. 1924 for Rs. 1624.00 (Rupees one thousand six hundred and twenty four only) per quintal read Rs. 1580.00 (Rupees one thousand five hundred and eighty only) per quintal.

VII. In Column 'Rate of drawback' against sub-serial Nos. 2413, 2415(i), 2418, 2419(b) and 2420 for the existing rates of drawback, the following rates of drawback shall be substituted:—

2413 . . .	Re. 0.30 (Paise thirty only) per kg.
2415(i) . . .	Re. 0.76 (Paise seventy six only) per kg.
2418 . . .	Re. 37.35 (Rupees thirty seven and paise thirty five only) per quintal
2419(b) . . .	Re. 0.64 (Paise sixty four only) per kg.
2420 . . .	Re. 0.80 (Paise eighty only) per kg.

VIII. Under the column 'Rate of drawback' against sub-clauses (b), (c) and (e) of Clause (A) of sub-serial No. 2502 for the existing rate of drawback the following rate of drawback shall be substituted:—

2502(A)(b) and (c) . . .	Rs. 43.15 (Rupees forty three and paise fifteen only) per kg.
2502(A)(e) . . .	Rs. 17.90 (Rupees seventeen and paise ninety only) per kg.

IX. For the existing sub-clause (f) of Clause (A) of sub-serial No. 2502 and the entries relating thereto, *excluding the proviso*, the following shall be substituted:—

(f) Wool content—

(i) in the worsted yarn of weaving quality made from wooltop.	Rs. 21.30 (Rupees twenty one and paise thirty only) per kg.
(ii) in the worsted yarn of weaving quality not made from wooltop.	Rs. 15.90 (Rupees fifteen and paise ninety only) per kg.
(iii) in the worsted hosiery yarn and worsted hand knitting yarn made from wool top.	Rs. 18.60 (Rupees eighteen and paise sixty only) per kg.
(iv) in the worsted hosiery yarn and worsted hand knitting yarn not made from wooltop.	Rs. 13.20 (Rupees thirteen and paise twenty only) per kg.

X. For the existing rate of drawback against sub-clause (i) of Clause (B) of sub-serial No. 2502, the following rate of drawback shall be substituted:—

"Rs. 16.20 (Rupees sixteen and paise twenty only) per kg."

XI. Under the Column 'Rate of drawback' against sub-clauses (a), (b), (c), (f) and (g) of clause (i) of item (C) of sub-serial No. 2503, for the existing rates of drawback, the following rates of drawback shall be substituted:—

2503(C)(i)(a) & (b) . . .	Rs. 45.00 (Rupees forty five only) per kg.
2503(C)(i)(c) . . .	Rs. 18.65 (Rupees eighteen and Paise sixty five only) per kg.
2503(C)(i)(f) . . .	Rs. 22.20 (Rupees twenty two and paise twenty only) per kg.
2503(C)(i)(g) . . .	Rs. 19.40 (Rupees nineteen and paise forty only) per kg.

XII. Under the Column 'Rate of drawback' against item (ii) of clause (C) of sub-serial No. 2503, for the existing rate of drawback, the following rate of drawback shall be substituted:—

"Rs. 16.80 (Rupees sixteen and paise eighty only) per kg."

XIII. Under Column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 2511 for the existing rate of drawback, the following rate of drawback shall be substituted:—

"Rs. 10.60 (Rupees ten and paise sixty only) per kg."

XIV. The existing sub-serial No. 2512 and the entries relating thereto, shall be omitted.

XV. Under Column 'Rate of drawback' against sub-clause (v) of sub-serial No. 2513 for the existing rate of drawback, the following rate of drawback shall be substituted :—

"Rs. 15.00 (Rupees fifteen only) per kg."

XVI. Under the Column 'Rate of drawback' against clause (1) of sub-serial No. 2625 for the existing rate of drawback the following rate of drawback shall be substituted :—

"Rs. 177.00 (Rupees one hundred and seventy seven only) per quintal."

XVII. For the existing entries against sub-serial No. 2903 the following entries shall be substituted :—

2903 Canvas Rubber Footwear	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.
--------------------------------	--

XVIII. Under the Column 'Rate of drawback' against clauses (a), (c), (d), (e)(i) and (g) of sub-serial No. 3402, for the existing rates of drawback, the following rates of drawback shall be substituted :—

3402 (a)	Rs. 19.00 (Rupees nineteen only) per tonne.
3402 (c)	Rs. 24.00 (Rupees twenty four only) per tonne.
3402 (d)	Rs. 24.00 (Rupees twenty four only) per tonne.
3402 (e)(i)	Rs. 24.00 (Rupees twenty four only) per tonne.
3402 (g)	Rs. 19.00 (Rupees nineteen only) per tonne.

XIX. Under the Column 'Rate of drawback' against clause (ii) of sub-serial No. 1102, for the existing rate of drawback, the following rate of drawback shall be substituted :—

"Rs. 300.00 (Rupees three hundred only) per tonne."

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1975

सं० प्रतिपदायगी/पी० एन०-51/75.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति-
अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित
अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार

सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पो० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संगोधन करती है :—

I “प्रतिअदायगी की दर” कालमों के अन्तर्गत उप-क्रमांक 1908, 1910, 1914, 1915 और 1916 के सम्बुद्ध विद्यमान दर के स्थान पर निम्नलिखित दर प्रतिस्थापित की जायगी :—

उप-क्रमांक	प्रतिअदायगी की दर
1908	1590.00 रुपये (केवल एक हजार पांच सौ नब्बे रुपये) प्रति बिबटल ।
1910	705.00 रुपये (केवल सात सौ पांच रुपये) प्रति बिबटल ।
1914	488.00 रुपये (केवल चार सौ अठ्ठासी रुपये) प्रति बिबटल ।
1915	718.00 रुपये (केवल सात सौ अठ्ठाह रुपये) प्रति बिबटल ।
1916	1020.00 रुपये (केवल एक हजार बीस रुपये) प्रति बिबटल ।

II. उप-क्रमांक 1916 के अन्तर्गत परन्तुक (ii) में 495.00 रुपये (केवल चार सौ पंचानवे रुपये) के लिए 488.00 रुपये (केवल चार सौ अठ्ठासी रुपये) पढ़ें ।

III. उप-क्रमांक 1917 के सामने ‘प्रतिअदायगी की दर’ कालम के अन्तर्गत प्रतिअदायगी की विद्यमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

1917 940.00 रुपये (केवल नौ सौ चालीस रुपये) प्रति बिबटल ।

IV. विद्यमान उप-क्रमांक 1918 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

1918 पोलिबिनाइल क्लोराइड संगचना तथा पोलिबिनाइल क्लोराइड से बने बिना परत वाले सख्त तथा लचीले बोर्डों, शीटिंग/चादरों/फिल्मों/ले फ्लैट ट्यूबिंग आदि से निर्मित वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जें (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में तथा लचीली पोलिबिनाइल क्लोराइड शीटिंग, चादरें, फिल्में तथा ले फ्लैट ट्यूबिंग, चाहे उनमें टैक्सटाइल सामग्री हो अथवा नहीं, शामिल नहीं है)

(क) लचीला	190.00 रुपये (केवल एक सौ नब्बे रुपये) प्रति बिबटल ।
(ख) सख्त पी०बी०सी० पाइप/पाइपों (सख्त) के लिये कण्डूत तथा उपकरण	295.00 रुपये (केवल दो सौ पंचानवे रुपये) प्रति बिबटल ।
(ग) पाइपों से भिन्न सख्त	259.00 रुपये (केवल दो सौ उनमठ रुपये) प्रति बिबटल ।

(घ) बिना सहारे की लकड़ों का दर

17.50 रुपये (केवल सत्रह रुपये पचास पैसे) प्रति बिबटल ।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त वस्तुओं के संग्रह में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का पालन नहीं किया जाता हो ।

V. उपक्रमांक 1921 के सामने 27.00 रु० (केवल सत्ताईस रुपये) प्रति बिबटल की प्रवर्तमान प्रतिअदायगी की दर के स्थान पर 17.50 रु० (केवल सत्रह रुपये पचास पैसे) प्रति बिबटल पढ़िये ।

VI. उपक्रमांक 1924 के खंड (IV) के सामने 'प्रतिअदायगी की दर' कालम के अन्तर्गत 1624.00 रु० (केवल सोलह सौ चौबीस रुपये) प्रति बिबटल के स्थान पर 1580.00 रु० (केवल पन्द्रह सौ अस्सी रुपये) प्रति बिबटल पढ़िये ।

VII. उपक्रमांक 2413, 2415 (i), 2418, 2419(ख), और 2420 के सामने 'प्रतिअदायगी की दर' कालम में प्रतिअदायगी की प्रवर्तमान दरों के स्थान पर प्रतिअदायगी की निम्नलिखित दरें प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

2413	0.30 रुपये (केवल तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2415(i)	0.76 रुपये (केवल छिहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2418	37.35 रुपये (केवल सैंतीस रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2419(ख)	0.64 रुपये (केवल चौषठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2420	0.80 रुपये (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

VIII. उपक्रमांक 2502 के खंड (क) के उपखंड (ख), (ग) तथा (ङ) के सामने 'प्रतिअदायगी की दर' कालम के अन्तर्गत प्रतिअदायगी की प्रवर्तमान दरों के स्थान पर प्रतिअदायगी की निम्नलिखित दरें प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

2502 (क), (ख) और (ग)	43.15 रुपये (केवल तैंतालिस रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2502(क), (ङ)	17.90 रुपये (केवल सत्रह रुपये और नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।

IX. उपक्रमांक 2502 के खंड (क) के प्रवर्तमान उपखंड (च) तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, परन्तुक्त को छोड़कर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

(च) ऊन अन्तर्वस्तु—

- | | |
|---|---|
| (i) बूल टाप से निर्मित बुनाई किस्म के वर्सेटेड धागे में | 21.30 रु० (केवल इक्कीस रुपये और तीस पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (ii) बूल टाप से अनिर्मित बुनाई किस्म के वर्सेटेड धागे में | 15.90 रु० (केवल पन्द्रह रुपये और नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (iii) बूल टाप से निर्मित वर्सेटेड होजरी धागे और वर्सेटेड हाथ से बुनाई के धागे में | 18.60 रु० (केवल अट्ठारह रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (iv) बूल टाप से अनिर्मित वर्सेटेड होजरी धागे और वर्सेटेड हाथ से बुनाई के धागे | 13.20 रु० (केवल तेरह रुपये बीस पैसे) प्रति किलोग्राम। |

X. उपक्रमांक 2502 के खंड (ख) के उपखंड (i) के सामने प्रवर्तमान प्रतिअदायगी की दर के स्थान पर प्रतिअदायगी की निम्नलिखित दर प्रतिस्थापित की जायगी :—

“16.20 रुपये (केवल सोलह रुपये बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।”

XI. उपक्रमांक 2503 की मद (ग) के खंड (i) के उपखंड (क), (ख), (ग), (च) और (छ) के सामने प्रतिअदायगी की दर कालम के अन्तर्गत प्रतिअदायगी की प्रवर्तमान दरों के स्थान पर प्रतिअदायगी की निम्नलिखित दरें प्रतिस्थापित की जायंगी :—

- | | |
|-----------------------|---|
| 2503(ग)(i) (क) और (ख) | 45.00 रुपये (केवल पैंतालीस रुपये) प्रति किलोग्राम। |
| 2503(ग)(i) (ग) | 18.65 रु० (केवल अट्ठारह रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| 2503 (ग) (i) (च) | 22.20 रु० (केवल बाईस रुपये और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| 2503(ग)(i) (छ) | 19.40 रु० (केवल उन्नीस रुपये और चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम। |

XII. ‘प्रतिअदायगी की दर’ कालम के अन्तर्गत उपक्रम सं० 2503 के खंड (ग) की मद (ii) के सामने प्रति अदायगी की प्रवर्तमान दर के स्थान पर प्रतिअदायगी की निम्नलिखित दर प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“16.80 रु० (केवल सोलह रुपये और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।”

XIII. ‘प्रतिअदायगी की दर’ कालम के अन्तर्गत उपक्रम सं० 2511 के सामने प्रतिअदायगी की प्रवर्तमान दर के स्थान पर प्रति अदायगी की निम्नलिखित दर प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“10.60 रु० (केवल दस रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।”

XIV. प्रवर्तमान उपक्रम सं० 2512 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

XV. 'प्रतिश्रदायगी की दर' कालम के अन्तर्गत उपक्रम सं० 2513 के खंड (V) के सामने प्रतिश्रदायगी की प्रवर्तमान दर के स्थान पर प्रतिश्रदायगी की निम्नलिखित दर प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“15.00 रु० (केवल पन्द्रह रुपये) प्रति किलोग्राम।”

XVI. 'प्रतिश्रदायगी की दर' कालम के अन्तर्गत उपक्रम सं० 2625 के खंड (1) के सामने प्रतिश्रदायगी की प्रवर्तमान दर के स्थान पर प्रतिश्रदायगी की निम्नलिखित दर प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“177.00 रु० (केवल एक सौ सत्तर रुपये) प्रति बिघटल।”

XVII. उपक्रमांक सं० 2903 के सामने की प्रवर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी :—

2903 केवल खर जूने पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)।

XVIII 'प्रतिश्रदायगी की दर' कालम के अन्तर्गत उपक्रम सं० 3402 के खंड (क), (ग), (घ), (ङ) (i) तथा (छ) के सामने प्रतिश्रदायगी की प्रवर्तमान दरों के स्थान पर प्रतिश्रदायगी की निम्नलिखित दरें प्रतिस्थापित की जायेगी :—

3402(क) 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये)
प्रति मीट्रिक टन।

3402(ग) 24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये)
प्रति मीट्रिक टन।

3402(घ) 24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये)
प्रति मीट्रिक टन।

3402(ङ) (i) 24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये)
प्रति मीट्रिक टन।

3402(छ) 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये)
प्रति मीट्रिक टन।

XIX. 'प्रतिश्रदायगी की दर' कालम के अन्तर्गत उपक्रम सं० 1102 के खंड (ii) के सामने प्रतिश्रदायगी की प्रवर्तमान दर के स्थान पर प्रतिश्रदायगी की निम्नलिखित दर प्रतिस्थापित की जायेगी :—

“300.00 रु० (केवल तीन सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन”।

सी० भुजंगस्वामी, उपसचिव।